



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929

No. 1540]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

**का.आ. 2126(अ).—** केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पुडुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पुडुचेरी कहा गया है) का गठन करती है जिसमें पुडुचेरी सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. प्रो० एम०ए०शिवशंकर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पाण्डिचेरी इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी-605014        | अध्यक्ष<br>पर्यावरण गुणवत्ता |
| 2. प्रो० अनिसा बशीर खान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग, पाण्डिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आर वी नगर, पुडुचेरी 605014 | जीव विज्ञान                  |
| 3. श्री एम अरुणाचलम, निदेशक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, पाण्डिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति                  | सदस्य-सचिव                   |

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।
3. प्राधिकरण, पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है ।
4. प्राधिकरण, पुडुचेरी इस आदेश में पुडुचेरी सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।
5. पुडुचेरी राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता पुडुचेरी सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।
6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार, पुडुचेरी राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पुडुचेरी का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

1	प्रो० एम पी रामानुजम, रीडर के०एम०पी०जी०स्टडीज सेन्टर, पुडुचेरी	अध्यक्ष, जीव विज्ञान
2	डा० जी पोयामोली, रीडर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग, पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	सदस्य, ई आई ए, प्रक्रिया
3	डा० आर सारावनन, सहायक प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पाण्डिचेरी, इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी-605014	सदस्य, जोखिम मूल्यांकन
4	डा० टी० नम्बीराजन, रीडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी- 605014	सदस्य, प्रबंधन
5	डा० एल० नटराजन, डीन पंडित जवाहरलाल नेहरू कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, कराईकल, पुडुचेरी-609603	सदस्य, जीव विज्ञान
6	डा० एस० गणपति, वेंकटसुवर्मन्, सहायक प्रोफेसर, सेंटर फॉर, एनवायरनमेंटल स्टडीज अन्ना यूनिवर्सिटी, चैन्नई- 6000 25	सदस्य, ई आई ए, प्रक्रिया

7	डा० के०के० सिवदासन, प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान विभाग, महत्मागांधी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, महे, न्यू महे, पोस्ट- 673311	सदस्य जीव-विज्ञान
8	डा० एस०भीरावमूर्ति, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, डा० एस०आर०के० गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, यानम, डी नं० 6-330, 1 क्रासस्ट्रीट जेकरियानगर, यानम- 533464	सदस्य, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र
9	डा०के सुंदरा वाडिवेलु, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, तृतीय तल, पीएचबी बिल्डिंग, अन्ना नगर, पुडुचेरी-5	सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी पुडुचेरी का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुर्नगठन किया जाएगा।

8. एस ई ए सी, पुडुचेरी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है।

9. एस ई ए सी पुडुचेरी सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी। अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

10. पुडुचेरी राज्य सरकार, एस ई ए सी पुडुचेरी के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई पुडुचेरी राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[सं. जे-11013/51/2007-आई ए-II (I)]

रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2007

**S.O. 2126(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Puducherry (hereinafter referred to as the Authority, Puducherry) comprising of three members namely,

Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Puducherry as under:

- |    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Prof M.A. Sivasankaran,<br>Head of the Department<br>Department of Civil Engineering,<br>Pondicherry Engineering<br>College,<br>Puducherry- 605 014 | Chairman, Environment<br>Quality |
| 2. | Prof. Anisa Basheer Khan,<br>Dept. of Environment and<br>Ecology,<br>Pondicherry Central University,<br>R.V. Nagar,<br>Puducherry- 605 014          | Life Sciences                    |
| 3. | Sh. M. Arunachalam,<br>Director<br>Dept. of Science , Technology<br>and Environment,<br>Pondicherry Pollution Control<br>Committee                  | Member Secretary                 |

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2006.

4. The Authority, Puducherry shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Puducherry in this order.

5. The State Government of Puducherry shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Puducherry as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Puducherry, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Puducherry (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members:

- |    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Prof. M.P. Ramanujam,<br>Reader,<br>K.M. Centre for PG Studies,<br>Puducherry | Chairman, Life Sciences |
|----|---|-------------------------|

- |    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| 2  | Dr. G. Poyyamoli,<br>Reader,<br>Dept. of Environment & Ecology,<br>Pondicherry University  | Member, EIA Process                |
| 3  | Dr. R. Saravanan<br>Asst. Professor<br>Civil Engineering Dept.<br>Pondicherry Engineering<br>College<br>Puducherry- 605 014                                      | Member, Risk Assessment            |
| 4  | Dr. T. Nambirajan<br>Reader<br>Department of Management<br>Studies,<br>School of Management<br>Pondicherry University<br>Puducherry- 605 014                     | Member, Management                 |
| 5  | Dr. L. Natarajan<br>Dean<br>Pandit Jawaharlal Nehru College<br>of Agriculture,<br>Karaikal<br>Puducherry- 609 603  | Member, Life Sciences              |
| 6  | Dr. S. Ganapathy<br>Venkatasubramanian, Asst.<br>Professor,<br>Centre for Environmental<br>Studies, Anna University<br>Chennai- 600 025                          | Member, EIA Process                |
| 7  | Dr. K.K. Sivadasan<br>Lecturer<br>Department of Botany<br>Mahatma Gandhi Govt. Arts<br>College<br>Mahe<br>New Mahe Post- 673 311                                 | Member, Life Sciences              |
| 8. | Dr. S. Bhyravamurthy<br>Lecturer<br>Dept. of Economics<br>Dr. S.R.K. Govt. Arts College<br>Yanam<br>D No. 8- 330, 1 Cross Street<br>Zecria Nagar, Yanam- 533 464 | Member, Environmental<br>Economics |

9. Dr. K. Sundaravadivelu                      Secretary  
Senior Scientific Officer  
Dept. of Science, Technology  
and Environment,  
3<sup>rd</sup> Floor, PHB Building,  
Anna Nagar, Puducherry- 5

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Puducherry shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Puducherry shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14<sup>th</sup> September, 2006.

9. The SEAC, Puducherry shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Puducherry shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Puducherry and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance / Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Puducherry as per State rules.

[No. J-11013/51/2007-IA. II (I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'